



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264115
CG-DL-E-25062025-264115

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2773]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2025/आषाढ़ 3, 1947

No. 2773]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2025/ASHADHA 3, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2025

का.आ. 2839(अ).—केंद्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 23 मई, 2023 में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2247 (अ) तारीख 23 मई, 2023 द्वारा प्रकाशित उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित 1338.57 एकड़ (लगभग) या 541.71 हेक्टेयर (लगभग) परिक्षेत्र की भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखंड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 1338.57 एकड़ (लगभग) या 541.71 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि और इसमें संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 1338.57 एकड़ (लगभग) अथवा 541.71 हेक्टेयर (लगभग), माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्यांक धारक आरईवी/02/2025 दिनांक 10 फरवरी, 2025 का निरीक्षण उपायुक्त जिला राँची, झारखण्ड के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वीं मंजिल, कोर II, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 के कार्यालय में अथवा महाप्रबंधक बरका सयाल क्षेत्र, जिला राँची, झारखण्ड अथवा महाप्रबंधक, भूमि और राजस्व, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची, 834001, झारखंड अथवा मुख्य प्रबंधक (अन्वेषण प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची 834008, झारखंड के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

हेंदेगीर ओपेंकास्ट परियोजना,

जिला राँची, झारखण्ड

[रेखांक धारक संख्यांक धारक आरईवी/02/2025 दिनांक 10 फरवरी, 2025]

सभी अधिकार:

क्र. सं.	ग्राम/ मौज़ा	थाना सं.	अंचल	जिला	अधिग्रहण के अधीन क्षेत्र		टिप्पणी
					एकड़ में	हेक्टेयर में	
1	छापर	33	बुढमु	राँची	826.08	334.31	भाग
2	बिंजा	34	बुढमु	राँची	508.76	205.89	भाग
3	चुरुगडा	32	बुढमु	राँची	3.73	1.51	भाग
अधिग्रहण की भूमि का कुल क्षेत्र					1338.57 एकड़ (लगभग)	541.71 हेक्टेयर (लगभग)	

1. ग्राम छापर में अधिग्रहण किए जाने वाले प्लॉट:

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33(भाग), 34, 35, 36, 37, 38, 39(भाग), 49(भाग), 50(भाग), 59(भाग), 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73(भाग), 74(भाग), 75(भाग), 76(भाग), 77(भाग), 78(भाग), 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94(भाग), 97(भाग), 98(भाग), 100(भाग), 101(भाग), 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242(भाग), 243(भाग), 244, 245, 246, 247, 248(भाग), 249(भाग), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293(भाग), 294(भाग), 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303(भाग), 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,

373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 (भाग), 484(भाग), 485(भाग), 486(भाग), 494(भाग), 496, 497, 498(भाग), 499(भाग), 501(भाग), 502(भाग), 507(भाग), 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522(भाग), 523, 524 (भाग), 582(भाग), 599(भाग), 689 (भाग), 692 (भाग), 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705(भाग), 706(भाग), 707(भाग), 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955(भाग), 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086(भाग), 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169(भाग), 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218(भाग), 1219(भाग), 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 135/1242, 115/1243, 157/1244, 763/1245, 763/1246, 825/1247, 956/1250, 952/1251, 957/1252, 957/1253, 1224/1254, 1224/1255, 1201/1256, 1050/1258 एवं 1260।

2. ग्राम बिंजा में अधिग्रहण किए जाने वाले प्लॉट:

1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566(भाग), 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572(भाग), 1573, 1574(भाग), 1575(भाग), 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1610(भाग), 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621(भाग), 40(भाग), 39(भाग), 2(भाग), 115(भाग), 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127(भाग), 199(भाग), 200, 202, 203(भाग) एवं 204(भाग)।

3. ग्राम चुरुगड़ा में अधिग्रहण किए जाने वाले प्लॉट:

739(भाग)।

सीमा वर्णन:

सीमा रेखा	सीमा वर्णन
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 1	रेखा बिंदु '1' से आरंभ होकर बिंदु 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 एवं 52 से गुजरते हुए आरंभिक बिंदु '1' पर मिलती है

[फा.सं. 43015/6/2021-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2025

S.O. 2839(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 2247 (E), dated the 23rd May, 2023, issued under sub-section (1) of section 7 of the coal bearing areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd May, 2023, the Central Government gave notice of its intention to acquire 1338.57 acres (approximately) or 541.71 hectares (approximately) of land and all rights in or over the land described in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the aforesaid report and after consulting the government of Jharkhand, is satisfied that the land measuring 1338.57 acres (approximately) or 541.71 hectares and all rights in or over such land as described in the Schedule appended hereto should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said act, the central Government hereby declares that all rights in or over the land measuring 1338.57 acres (approximately) or 541.71 hectares as described in the Schedule annexed, are hereby acquired.

The Plan bearing number Rev/02/2025, dated the 10th February, 2025 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, District Ranchi, Jharkhand or at the office of Coal Controller, Coal Controller's Organisation, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi-110092 or in the office of the General Manager, Barka Sayal Area, District Ranchi, Jharkhand or General Manager, Land and Revenue, CCL, Darbhanga House, Ranchi-834001, Jharkhand or Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834008, Jharkhand.

SCHEDULE

Hendegir Opencast Project,

District Ranchi, Jharkhand

[Plan bearing number Rev/02/2025, dated the 10th February, 2025]

All Rights:

Sl. No.	Village	Thana No.	Circle	District	Area under acquisition		Remarks
					In Acres	In Hectares	
1	Chapper	33	Burmu	Ranchi	826.08	334.31	Part
2	Binja	34	Burmu	Ranchi	508.76	205.89	Part
3	Churugarha	32	Burmu	Ranchi	3.73	1.51	Part
Total Area under acquisition:					1338.57 acres (approximately)	541.71 hectares (approximately)	

1. Plots under acquisition in village Chapper:

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33(P), 34, 35, 36, 37, 38, 39(P), 49(P), 50(P), 59(P), 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73(P), 74(P), 75(P), 76(P), 77(P), 78(P), 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94(P), 97(P), 98(P), 100(P), 101(P), 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242(P), 243(P), 244, 245, 246, 247, 248(P), 249(P), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293(P), 294(P), 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303(P), 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 (P), 484(P), 485(P), 486(P), 494(P), 496, 497, 498(P), 499(P), 501(P), 502(P), 507(P), 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522(P), 523, 524 (P), 582(P), 599(P), 689 (P), 692 (P), 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705(P), 706(P), 707(P), 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955(P), 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086(P), 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,

1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169(P), 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218(P), 1219(P), 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 135/1242, 115/1243, 157/1244, 763/1245, 763/1246, 825/1247, 956/1250, 952/1251, 957/1252, 957/1253, 1224/1254, 1224/1255, 1201/1256, 1050/1258 and 1260.

2. Plots under acquisition in village Binja:

1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566(P), 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572(P), 1573, 1574(P), 1575(P), 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1610(P), 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621(P), 40(P), 39(P), 2(P), 115(P), 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127(P), 199(P), 200, 202, 203(P) and 204(P).

3. Plots under acquisition in village Churugarha:

739(P).

Boundary Description:

Boundary Line	Boundary Description
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-1	Line starts from point '1' and passes through points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 and 52 and meets at starting point '1'.

[F. No. 43015/6/2021-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.